



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022

आषाढ़ 31, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2052/9-1-2022-63 टी0ए0-20

लखनऊ, 22 जुलाई, 2022

अधिसूचना

प0आ0-349

चूँकि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत पथरदेवा, जिला देवरिया का गठन करने हेतु नीचे अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 2388/9-1-2020-63 टी0ए0-2020, दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 जारी करके तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी।

और, चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या 1040/9-1-2022-63 टी0-20, दिनांक 6 जून, 2022 द्वारा कर दिया गया है।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची में दी गयी हैं, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील

क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत पथरदेवा, जिला देवरिया के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1

नगर पंचायत पथरदेवा, जिला देवरिया का प्रादेशिक क्षेत्र

दिशा	सम्मिलित ग्राम व गाटा संख्याएं
पूरब	1-पथरदेवा-1 से 1119 तक 2-कुचया-01 से 502 तक 3-महुआरी-01 से 470 तक 4-मछैला-01 से 370 तक
पश्चिम	5-सिधावे-01 से 1432 तक 6-धर्मागतपट्टी-01 से 179 तक
उत्तर	7-भेलीपट्टी-01 से 1332 तक 8-फरेन्दहा-01 से 470 तक
दक्षिण	-----

आज्ञा से,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2052/IX-1-2022-63T.A.-20, dated July 22, 2022:

No. 2052/IX-1-2022-63T.A.-20

Dated Lucknow, July 22, 2022

WHEREAS Government notification no. 2388/IX-1-2020-63T.A.-20, dated December 12, 2020 was issued and published in the *Gazette* with a view to invite objections and suggestions for issuance of notification for specifying the area mentioned in the Schedule below as a transitional area for constituting Nagar Panchayat Pathardewa in District Deoria as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916).

AND, WHEREAS, the objections and suggestions received in pursuance of said notification were disposed of *vide* Government order no. 1040/IX-1-2022-63T.A.-20, dated June 6, 2022.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of Section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to specify that the local area the limits of which are given in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Pathardewa in district Deoria.

SCHEDULE-1

Territorial area of Nagar Panchayat Pathardewa, District Deoria

Direction	Included Village and their Gata Nos.
East	1-Pathardeva- 01 to 1119 2-Kuchya 01 to 502 3-Mahuari- 01 to 470 4- Macchela- 01 to 370
West	5-Sidhava- 01 to 1432 6-Dharmagatpatti- 01 to 179
North	7-Bhelipatti- 01 to 1332 8-Farendha- 01 to 470
South	—

By order,
AMRIT ABHIJAT,
Pramukh Sachiv.